

वस्त्र मंत्रालय

मंत्रिमंडल के लिए अप्रैल, 2018 माह का मासिक सार

1. नीतिगत निर्णय:-

- i. **‘समर्थ’- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना:** वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना - ‘समर्थ’ के अंतर्गत नीतिगत दिशानिर्देश 23 अप्रैल, 2018 को जारी किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में लाभप्रद एवं सतत रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करना है।
- ii. **कच्ची पटसन हेतु अधिकतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि:** आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने 25 अप्रैल, 2018 को संपन्न अपनी बैठक में टीडीएन-3 ग्रेड की कच्ची पटसन की एमएसपी की दरों को 3500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का अनुमोदन किया था। भारतीय पटसन निगम कीमतों के एमएसपी दर से नीचे आने की स्थिति में बिना किसी मात्रात्मक सीमाओं के एमएसपी अभियान चलाएगा।

2. महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- i. **हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन:** हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों में आ रही बाधाओं को दूर करने तथा इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए केंद्र-राज्य सरकारों के समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में 26.04.2018 को राज्यों के वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हथकरघा एवं हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए वस्त्र मंत्रालय की पहलों पर चर्चा की गई तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र बुनकरों तथा कारीगरों द्वारा उठाया जा रहा है, राज्यों का समर्थन मांगा गया।
- ii. **एसएस-एसटी कारीगरों को विपणन सहायता:** बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा ज्योति राव गोविंद राव फुले की जयंती का उत्सव बनाने के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में 11-17 अप्रैल, 2018 के दौरान 24 विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनसे लगभग 1000 एससी-एसटी कारीगरों को लाभ प्राप्त हुआ।
- iii. **बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रगति:** बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत अभी तक 374.57 करोड़ रुपए मूल्य की अनुमोदित ऋण राशि के साथ 68,404 ऋण स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 2018 तक 42.90 करोड़ रुपए की राशि के 6172 ऋण स्वीकृत किए गए थे।

- iv. **पटसन:** पटसन क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए 05.04.2018 को पटसन क्षेत्र पर संसदीय परामर्शदात्री समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। माननीय वस्त्र मंत्री ने सदस्यों को सूचित किया कि सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान पटसन के लिए एमएसपी को लगभग 52% तक बढ़ा दिया है। समिति को पटसन क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुआयामी सहायता के बारे में अवगत कराया गया।
- v. **कपास:** अप्रैल, 2018 के दौरान कपास की अखिल भारतीय आवक 21.39 लाख गांठें थी। चूंकि अप्रैल, 2018 में कच्ची कपास का बाजार मूल्य अधिकांशतः न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर चल रहा था इसलिए भारतीय कपास निगम द्वारा एमएसपी के अंतर्गत केवल 5062 गांठों की ही खरीद की गई थी।
- vi. **विद्युतकरघा क्षेत्र:** विद्युतकरघा कामगारों हेतु समूह बीमा योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2018 के दौरान विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा भारत सरकार के 85,330 रुपए के प्रीमियम हिस्से के साथ 473 विद्युतकरघा कामगारों का पंजीकरण किया गया था।
- vii. **टीयूएफएस:** अप्रैल, 2018 के दौरान, 958.45 करोड़ रुपए की परियोजना लागत तथा ए-टीयूएफएस के अंतर्गत 68.75 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवश्यकता के साथ 291 यूआईडी जारी की गई हैं। सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में मामलों की जांच तथा टीयूएफएस पर एनएबीसीओएनएस की थर्ड पार्टी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 19 अप्रैल, 2018 को एक बैठक आयोजित की गई थी।
- viii. **शिल्प मेला-होम एक्सपो इंडिया 2018:** हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 16-18 अप्रैल, 2018 के दौरान ग्रेटर नोएडा में 7वें होम एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन किया गया था। वस्त्र मंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले इस एक्सपो में देशभर से 700 प्रदर्शकों ने भाग लिया।
- ix. मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 25वीं बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को हैदराबाद में आयोजित की गई थी। यह बैठक सचिव (वस्त्र) तथा समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई।
